

MMGSU-SC. અનર્થેલ અરજા મા પ્રસંધે
સ્વતંત્રી સામે અપનાવેલ અર તબ સ્વરૂપ
Schedule XLV-Form No. 134
કેમણે સ્વપાનિ વંકીવર સ્વ. સ્વપાનિકા
સ્વસ્વ મામા કો સં. ૦૨-૦૨-૨૦૨૧
સ્વસ્વ મામા કો સં. ૦૩-૦૩-૨૦૨૧
કાપુવાર અસ્વ ને ના વિ. ૧૩.૦૫.૨૦૨૦
કાપુવાર અસ્વ ને ના વિ. ૧૩.૦૫.૨૦૨૦
સ્વસ્વ અ. અસ્વ વિ. ૧૩.૦૫.૨૦૨૦
SUBDIVISION

Measurement Book

માપપુસ્તક નો સંસ્કાર - ૩૫૭/૨૦૨૦-૨૧

प्रमाणित किया जाता है कि
इस मापी पुस्त में मुद्रित रूप से
पढ़ने हैं जो प्रो निवेत कुमार सह
अभिपन्न ग्रामीण कार्य प्रमंडल
भरवाणा के नाम से निर्गत किया
जाता है।

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज
24/12/20
जि०/५२२० -

Sch. XLV—Form No. 134

C.C. 1210.623 = DIVISION
M.C. 14,65,403 = SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 859.
2020-21

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

2nd on A/c bill

Sch. XLV—Form No. 134

19

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Work done - Contn of road from Khatwa to 1st to 5th Nagar North with five yrs main under M. S. Y. C. S. Agency - Anwar Kishor Singh.					
Agg. No. - 02-SB/MSY/20-21					
Date of Commencement - 13/05/20					
Time of Completion - 12-05-21					
Agg. value - Contn - 122.10627 lac					
Manch - 14.65707 "					
Total = 136.76334 lac					
Rate of assessment - 0.07% below					

Record measurement

① Contn of un-landed P.C. pavement m-30 do to 150.

4	30.00	3.75	0.150	72.00 m ³
4	30.00	3.75	0.160	72.00 "
5	30.00	3.75	0.160	90.00 "
				234.00 m ³
				ie 234.00 m ³

05/2/21
JL

Continuation

ABSTRACT OF COST

Beh. XLV—Form No. 134 20

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Setting out work do. all day Qty vid Tmb P/H ite ① 160.212 m 35181/11 = 56162					
② clearing & grubbing road 2 v. d Qty vid Tmb P/H ite ② 10.46 Hect 49739.5/11 = 22880					
③ Cemented emb. do - upto 100 m road Qty vid Tmb P/H ite ③					

1460.212 m 3					
② 153781 m 224551					
④ Cemented embankment do - upto 1000 m road Qty vid Tmb P/H ite ④ 365.053 m 17714/11 = 65375					

Continuation 368988

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					368988
⑤ Center subgrade to center of shoulder do TSC 303.1					
Qty vid TMS P/12 H (5)					
849.38 m @ 179.14 m =					152158
⑥ Center of G.S.W.I. do TSC 401					
Qty vid TMS P/12 H (2)					
882.90 m @ 3892.63 m =					3436803

⑦ Center of G.S.W.I. do TSC 401					
Qty vid TMS P/12 H (7)					
168.75 m @ 275282 m =					464583
⑧ Plv. lying up road to center of road do TSC 405					
Qty vid TMS P/12 H (8)					
295.32 m @ 4734.22 m =					1398110
Continuation					5820642

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(9) Ery in enclosure 23 in ground for structure.					5820642
Qty vid TmAP/13 it (9)					
1115 m ³ @ 261.90/m ³ → 29212					
(10) Plw p.c. 13-10 in 24 open ground					
Qty vid TmAP/13 it (10)					
T. 90 m ³ (2) 7023.93/m ³ → 55489					
(11) Plw p.c. 20-20 in 25 ground					
Qty vid TmAP/13 it (11)					
332.30 m ³ @ 756527/m ³ → 951393					
(12) Plw p.c. 17-20 in 26 substructure					
Qty vid TmAP/13 it (12)					
20.50 m ³ @ 7524.87/m ³ → 1542602					
(13) Plw p.c. 12-12 in 27 open ground					
Qty vid TmAP/13 it (13)					
12 m ³ (2) 120.48/m ³ → 144629					

Continuation

56312442

Particulars	Details of actual measurement				Contents of all ^{all}
	No.	L.	B.	D.	
					86312442
(14) p/v R.O. m-25 in					
28 Substruck					
Qty vide T.M.B.P/14 at (14)					
9.99 m @ 8493.60/m ²					84851=
(15) STIP HYSD Bar					
29 reinforcement di-					
mbutment.					
Qty vide T.M.B.P/14 at (15)					
2.57 m T @ 869840.78/m ²					179748=

(16) Back filling					
30 Behind abutment/					
Rwall do all Comp.					
Qty vide T.M.B.P/14					
id (16)					
34.26 m ³ @					
895.12/m ³					23815=

Continuation

866088620

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					86600856
(17) Plv 2 laying					
31 2 1/2 in med. g					
Qty vid Tmp 1/5 il (17)					
1983 ³ m @ 8590.00/m ³					79123.5
(18) Plv 2 laying f.c.c					
32 m 25 in Super stru					
Qty vid Tmp 1/5 il (18)					
438 ³ m @ 8891.71/m ³					38946.2

(19) S/F IP HVD bar					
33 reinforcement in					
Super structure					
Qty vid Tmp 1/5 il (19)					
0.44 MT @ 71005.80/MT					3243.2
(20) Plv 2 fixing drainage					
34 spout					
Qty vid Tmp 1/5 il (20)					
04 Nos @ 54059/each					2162.36

Continuation

86752330

